

देखभाल तथा अवसर के लिए योजना



देखभाल के लिए एक योजना

जैसा कि अर्थव्यवस्था में बदलाव जारी है, कई लोग बढ़ते दबावों का सामना कर रहे हैं, जिससे उन्हें खुद की और उनके परिवारों की देखभाल करने में मुश्किल हो रही है। इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए, सरकार, देखभाल और सेवाओं में अधिक निवेश कर रही है, जिन पर प्रांत भर के लोग निर्भर करते हैं, परिवारों द्वारा सामना किए जा रहे दबावों को कम करते हुए और उन्हें अपने प्रियजनों की देखभाल करने और आगे बढ़ने का हर मौका देते हुए।



और अधिक चाइल्ड केयर, और अधिक विकल्प

ढाई साल की उमर के बच्चों के लिए उनके किंडरगार्टन के लिए योग्य हो जाने तक प्रीस्कूल चाइल्ड केयर को निःशुल्क बना कर बच्चों की किफायती, गुणवत्ता वाली, देखभाल तब तक मुहैया करना, जब तक वह किंडरगार्टन के योग्य नहीं हो जाते, एक बच्चे वाले परिवार के लिए औसतन \$17,000 बचाता है तथा उन बचतों को बढ़ाता है जो परिवार फुल-डे किंडरगार्टन से प्राप्त करते हैं।



दवा और चिकित्सकीय लागत को कम करना

एक नए ऑंटारियो ड्रग तथा डेंटल प्रोग्राम की शुरुआत करना, जो कार्यस्थल में सेहत संबंधी लाभों के बिना या OHIP+ या दूसरे सरकारी प्रोग्रामों के द्वारा कवर नहीं किए जाने वाले लोगों के लिए हर साल योग्य निर्धारित दवाओं तथा दंत्य खर्चों का 80 प्रतिशत, प्रति अकेले व्यक्ति के लिए \$400, प्रति जोड़े के लिए \$600 तथा दो बच्चों वाले चार लोगों वाले परिवार के लिए \$700 तक वापस करता है।



मुफ्त प्रिसक्रिप्शन 65+

65 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रिसक्रिप्शन पूरी तरह से मुफ्त करके, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी सीनियर नागरिक को कभी भी आवश्यक दवाओं के बिना ना रहना पड़े। ओन्टारियो ड्रग बेनिफिट वार्षिक कटौती और को-पे को समाप्त करने से, यह औसत ओन्टारियो सीनियर को प्रति वर्ष \$240 की बचत करता है।

हम परिवारों की वह देखभाल प्राप्त करने में कैसे मदद कर रहे हैं, जिसकी उन्हें आवश्यकता है, जब उन्हें आवश्यकता है

ऑंटारियो:

- ढाई साल की उमर के बच्चों के लिए उनके किंडरगार्टन के लिए योग्य हो जाने तक प्रीस्कूल चाइल्ड केयर को निःशुल्क बना कर बच्चों की किफायती, गुणवत्ता वाली, देखभाल मुहैया करना। यह एक बच्चे वाले परिवार के लिए औसतन \$17,000 बचाता है तथा उन बच्चों को बढ़ाता है जो परिवार फुल-डे किंडरगार्टन से प्राप्त करते हैं।
- एक नए ऑंटारियो ड्रग तथा डेंटल प्रोग्राम की शुरुआत करना, जो कार्यस्थल में सेहत संबंधी लाभों के बिना या OHIP+ या दूसरे सरकारी प्रोग्रामों के द्वारा कवर नहीं किए जाने वाले लोगों के लिए हर साल योग्य निर्धारित दवाओं तथा दंत्य खर्चों का 80 प्रतिशत, प्रति अकेले व्यक्ति के लिए \$400, प्रति जोड़े के लिए \$600 तथा दो बच्चों वाले चार लोगों वाले परिवार के लिए \$700 तक वापस करता है।
- नए सीनियर हैल्दी होम प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रहा है। यह बूढ़े सीनियरों की घर पर रहने से जुड़ी लागतों को पहचानता है, जहां वे रहना चाहते हैं। यह 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सीनियर नागरिकों द्वारा चलाए जाने वाले योग्य घरों को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए और अपने घरों को बनाए रखने की लागतों की भरपाई करने के लिए सलाना \$750 तक का लाभ प्रदान करता है।
- सारे ऑंटारियो में लाखों और ज़्यादा बच्चों, नवयुवकों तथा बालिगों के लिए मानसिक सेहत तथा लतों संबंधी सेवाओं तक बेहतर तथा तीव्रतर पहुंच मुहैया करना - कुल वित्त पोषण को चार सालों में \$17 बिलियन से अधिक तक लाते हुए।
- दैनिक देखभाल की मात्रा बढ़ाना, प्रत्येक व्यक्ति को लॉंगटर्म देखभाल घरों में औसत चार घंटे की देखभाल प्राप्त होती है।
- अगले 10 वर्षों में 30,000 नए लॉंगटर्म देखभाल बैड बनाने - 2022 तक 5,000 नए बैड जोड़कर - उन लोगों की मदद करने के लिए जो अब स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं और उन लोगों के लिए मन की शांति प्रदान करना जो उनकी परवाह करते हैं। यह नए बैड 30,000 मौजूदा पुनर्विकसित किए गए बैडों के आलावा हैं।
- डिमेंशिया की नई तशखीस किए गए 14,000 लोगों की देखभाल में सुधार, चाहे वे कहीं भी रहते हों।
- 10 साल के दौरान अस्पतालों के निर्माण और उनको पुनर्निर्मित करने के लिए \$19 बिलियन का निवेश करना, सिककिडज़ के नए पेशेंट केयर सेंटर के डिज़ाइन और निर्माण के लिए लगभग \$2.4 बिलियन, और औटवा अस्पताल के सिविक कैम्पस पुनर्विकास के डिज़ाइन और निर्माण के लिए \$1.8 बिलियन के सहित।

- देखभाल तक बेहतर पहुंच मुहैया करके, प्रतीक्षा के समयों को कम करके, सामर्थ्य संबंधी मुद्दों को सम्बोधित करके तथा ऑंटारियो की बढ़ती तथा वृद्ध हो रही आबादी की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करके 2018 - 19 में \$822 बिलियन के अतिरिक्त निवेश – लगभग एक दशक में अस्पतालों में सबसे बड़ा एकल सरकारी निवेश।
- विकास संबंधी विकलांगताओं वाले लगभग 47,000 बालिगों के लिए ऐसी पहुँच के द्वारा सेवाओं को मज़बूत करने के लिए \$1.8 बिलियन का निवेश करके न्याय संगत समाज का निर्माण करना जो सूचित चयनों तथा समुदाय में क्रियाशील सहभागिता के योग्य बनाती है।
- अगले तीन वर्षों में अतिरिक्त \$2.3 बिलियन का निवेश करके सोशल असिस्टेंस प्राप्त करने वाले लोगों का समर्थन करने की लिए दरें बढ़ाना, जटिल नियमों को घटाना और उन लोगों को बेहतर समर्थन देने के लिए प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, जिनको इसकी आवश्यकता है।